

युवा मोर्चा लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करेगा : उषा ठाकुर

महू (इंदौर समाचार) आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा महू विधानसभा की बैठक भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई



युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि युव विचार मंडल अभियान युवा मोर्चा संकल्प कार्यक्रमों के अंतर्गत समिति तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गांव से लेकर ग्राहक तक नव मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर युवा मोर्चा की कामकाजी बैठक भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुशीला उपा ठाकुर ने युवा मोर्चा को लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं से सम्पर्क कर

नायक जेठ मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका निभाने का युवा वक्ता के वक्ता के साथ हर बुध पर सक्रियता के साथ कार्य करें, वहीं भाजपा नेता ओमप्रकाश प्रसादविरा, कचनसिंह चौहान, सुभाष मोहन विधानसभा विस्तारक अभियान आर्य ने भी संबोधित किया कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री सुभाष पाटीदार, धर्मकर, कश्यप, विजयलाल डावर्, की के कोशल मोहन यादव, अजय कैथवास, मुकेश सोलंकीगोपी परदेय, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष धर्मेश जाट, शिखर लखर, नरप अग्रवाल

डंपर में घुसी आयाशर, ड्राइवर की मौत, क्लोनर गंभीर घायल

महू इंदौर समाचार/ किशनगंज बाना क्षेत्र में आने वाले मुहंई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम चौपट्टी में शुक्रवार सुबह हादसा हो गया। यहां पीछे से एक आयाशर वाहन टक्कर में जा घुसी। हादसे में आयाशर ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं कंडक्टर गंभीर घायल है, जिसे इंदौर रेफर किया गया है। जाफरगढ़ के अनुसार सुबह 6 बजे नासिक से आयाशर भरकर उत्तर प्रदेश जा रही एक आयाशर वाहन पीछे से डंपर में जा घुसी। हादसे के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर वाहन में फंस गए थे। करीब डेढ़ घंटे के मशकत के बाद पुलिस और ग्रामिणों ने दोनों को बाहर निकाला। हादसे के दौरान ड्राइवर की देह तक तड़पता रहा, इस दौरान मौत भी उसकी ही हो गई। वहीं कंडक्टर गंभीर रूप से घायल है, जिसे इंदौर के एम्बीआर अस्पताल रेफर किया गया है। जहां उसका इलाज जारी है। 1108 थुल्लेस के ड्राइवर हरीश ने बताया कि ड्राइवर का नाम विवेक सिंह है जो लखनऊ का रहने वाला है। वहीं कंडक्टर का नाम रामप्रकाश है। डंपर मामले में किशनगंज थाना प्रभारी कुलदीप खत्री का कहना है कि घटना सुबह 6 बजे करीब की है। यहां सीसीटीवी फुटेज पर डंपर ने आयाशर ब्रेक लगा दिया। तभी आयाशर वाहन पीछे से डंपर में जा घुसा। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जिसका स्थिति अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करवाया गया है, साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है।

मेरा कॉलम

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उत्तुप'
मो. नं. 73 8657 8657

दरवाजा

उसके घर बंद वाले आए थे। लौटने के लिए नहीं खुलने के लिए। बहुत देर की निराह के बाद उन्होंने उसके घर दरवाजा खड़ा दिया। उसे अपने साथ ले जाने लगे। मुझे लगा हो न हो इस दरवाजे में कुछ खास है। इतने दिन उसके घर आया था। मैं वहीं ही रहूँ। मैं बहुत सारी चीजें ली थीं हैं, लेकिन कभी दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आमतौर पर दरवाजा सामान्य की एकदम का बना हुआ था। एक अरसा हुआ उसे रंगीले लैंकन आया मैं नमस्तु था। बंद वाले दरवाजा क्या ले गए माने उसकी जान ले गए। घर वाले छाती पीट-पीटकर रोने-बिलखने लगे। ये पुरानी चीजें भी सब कुछ-कुछ की कैटरिंग से उबर गयीं योंदे बन जाती हैं। पता ही नहीं चलता। पुरानी चीजों का तिरस्कार बड़ों बुढ़ापा होता है, क्योंकि हर एक नई चीज कभी न कभी पुरानी पड़ती है। नए के बजाए में पुराने से हल्का मंडना संवेदन को कामी का प्रतिहार है।

मैंने उससे पूछा कि बंद वाले दरवाजा क्यों ले जा रहे हैं? तो उसने रोते हुए कहा - क्या बताऊं तुम्हें कि मुझ पर क्या बीत रही है? मैं बंद वाले को से एक लाख रुपए का कर्जा लिया था। कर्जा देने समय उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए लाख दिखाने दी थी कि समय पर कर्जा चुका देना। वरना ब्याज बढ़ने का चक्र हमेशा बना रहेगा। ब्याज और लड़की देखते-देखते बढ़ जाते हैं। आज नहीं के भरसे था। असमय बरसात के चलेते सारी फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने इस मुकाम को भरपाई के लिए मुआवजा दिया। उसमें मैं नहीं था। वह क्या था कि उसकी नजर में गरीबों की फसल कभी बर्बाद नहीं होती, होती है तो केवल अमीरों की। मुआवजा अमीरों को मिला और मुझे लातना। कालत की बात तो यह थी कि मुआवजा उन अमीरों को भी मिला जिनकी ढेर सारी बंजर जमीनें थीं। सच है मुआवजा फसल की बर्बादी देखकर नहीं लोगों की हैसियत देखकर दिया जाता है। वह आगे कहने लगा - मैं बैंक वालों का कर्जा चुकाने में असमर्थ था। बाजार से जो कर्जा लिया था उसे चुकाने के लिए गाय-गोरू सब बेच दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं था। बैंक वाले कई दिनों से धमका रहे थे। सोचा बैंक वाले हैं आज नहीं तो कल माफ कर दो देगें। लेकिन मैं पतत था। मैं कर्ज लेने से पहले उनकी नजर में किसान था। कर्ज लेने के बाद ख़ागी बना। ख़ा चुकाने की आसमानी तो कब मुझे उनकी नजर में चोर, उकचा और नक्सली बना दिया, पता ही नहीं चलता। और दिन एक बार पर आता। ड्राइव और बीबी-बच्चों का ड्राना अब हमारी ख़ुशी का हिस्सा हो गए थे। जब उन्हें लगा कि मैं कर्जा नहीं चुका सकता तो आज वे दरवाजा खड़ा ले गए।

ऐसा क्या खास था उस दरवाजे में? कहीं उसमें सोन-चाँदी भी नहीं जता था? या फिर पुरातत्व विभाग इसके पीछे लगा था? मैंने उसकातावा पूछा।

उसने रोते हुए कहा - सोने-चाँदी से भी महीनी चीजें थी उस दरवाजे में। और वह थी हमारी इज्जत। दुनिया की नजर में वे दरवाजा ले गए लेकिन हमें बीबी की अभिरा खोजे गए। क्या हमारी इज्जत हमारी सख्ती है कि कोई भी आकर उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है? अब तक हम दरवाजा बंद कर नहीं दिते तब रुखा-सूखा जो कुछ भी खाली कभी दूसरी को पता नहीं चलता था। चलता भी कैसे? दरवाजे ने केवल हमें अपने जाने का रास्ता ही नहीं इज्जत बचाए रखने का साहज भी दिया था। देखा जाए तो वह लकड़ी है, मरुस्थल करो तो इज्जत है।

मैं वहीं से चला गया। अगले दिन समझाच वन में छपा था - एसबीआई बैंक ने अदानी का 12,770 करोड़ रुपए का कर्जा किया माफ। साथ में उसी खबर के नीचे एक छोटी सी खबर छपी थी - दरवाजे के वन में एक किसान ने की आत्महत्या।

संध्या फेरी एवं भगवा यात्रा

राऊ, संजय पाटीदार। हिंदू नव वर्ष एवं रामनवमी जयोल्लस के अंतर्गत श्री राम नाम संकीर्तन संध्या फेरी का आयोजन अवधेश्वर महाराज मंदिर से 5 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से निकली जाएगी।

प्रतिवर्ष अतुसार इस वीरु पडवा के अवसर पर 9 अप्रैल को प्रातः नगर के विभिन्न नगरिकों द्वारा सूर्य को अर्पण देने के साथ नव वर्ष की शुरुआत तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से निकली जाएगी।

प्रक्राज राजेश राठौर के भाई का निधन

इंदौर। वरिष्ठ प्रक्राज राजेश राठौर के बड़े भाई मनोज राठौर का निधन हो गया।



उनकी अंतिम विधिवक मां नार स्थित निवास से निकली और पंचक्रुईया मुकीधाम पर पहुंची। अंतिम यात्रा में कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। पंचक्रुईया मुकीधाम पर मनोज राठौर को अंतिम विदाई देने के बाद श्रद्धांजली दी गई। समाजजी, राजनीतिक और धार्मिक संस्था से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धांजली दी। इनमें मुख्य रूप से किशोर पुराडिया विजय देवड़ा, ललित राठौर, संजय राठौर, अशोक राठौर, सुभाष खंडेवाल आदि शामिल थे। श्रद्धांजली देने के बाद दो मिस्ट का मनी रखकर मृत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की गई। शोक बैठक 7 अप्रैल रविवार को शाम 5 से 6 बजे तक खरीमा स्थित बीडी तोरानीवाल हॉल में रखी गई है। वरिष्ठ प्रक्राज राजेश राठौर के बड़े भाई का निधन होने पर सुखमंजी डॉ. मोहन यादव ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है।

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSE AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA)



TEERTH GOPICON LIMITED

Corporate Identity Number: U45209GJ2019PLC110249
Incorporated on October 10, 2019 at Ahmedabad

Our company was originally incorporated as "Teerth Gopicon Private Limited", at Ahmedabad as a private limited company registered under the provisions of Companies Act, 2013 pursuant to a Certificate of Incorporation dated October 10, 2019 bearing Corporate Identification Number U45209GJ2019PLC110249 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre, subsequently, our Company was converted into a public limited Company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on July 31, 2021 and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad dated August 02, 2021. Consequently, the name of our Company changed to "Teerth Gopicon Limited" and the Corporate Identification Number of our Company is U45209GJ2019PLC110249. For further Details of Incorporation and Change in Registered Office of our Company, please refer to section titled "Our History and Certain Other Corporate Matters" beginning on page No. 111 of the Prospectus.

Registered office: 703, Sapath Complex-1, Opp. Rajash Club, Near Madhur Hotel, Bodoldev, Ahmedabad-380054, Gujarat, India.
Corporate Office: 204, Anar Metro Near Baitkhatan Sangh Pagnis Page, Pagnispage Indore, Madhya Pradesh, India, 452007. Tel No.: +91 9978408086, E-Mail: investor@teerthgopicon.com; Contact Person: Diksha Joshi, Company Secretary and Compliance Officer; Website: www.teerthgopicon.com; Corporate Identity Number: U45209GJ2019PLC110249

PROMOTERS OF THE COMPANY: MAHESHBHAI KUMBHANI, CHANDRIKABEN KUMBHANI AND PALLAV KUMBHANI

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 39,99,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF TEERTH GOPICON LIMITED ("TGL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 101 PER EQUITY SHARE ("THE ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 4439.556 LACS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,00,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹111 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 101 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹222.444 WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE ("THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.e., NET ISSUE OF 37,99,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO 4,27.12 LACS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 33.33% AND 31.68% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 186 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS 11.1 TIMES OF THE FACE VALUE.

This issue is being made through Fixed Price Process in terms of Chapter IX of the Securities And Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended ("SEBI ICDR Regulations") and allocation in the net issue to the public will be made in terms of regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations. In terms of the Regulation 19(7)(B) of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1987, as amended ("the SCRR"), the issue is being made for at least 25% of the post-paid-up Share capital of our Company. All the bidders, shall participate in the issue through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective bank account (including UPIID for Rills using UPI Mechanism) wherein the bid amount will be blocked by the SCBs or under the UPI mechanism, as the case may be, to the extent of respective bid amounts. For details Please refer to chapter titled "Issue Procedure" beginning on Page 195 of the Prospectus.

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON: APRIL 08, 2024 ISSUE CLOSING ON: APRIL 10, 2024

FIXED PRICE ISSUE AT ₹111/- PER EQUITY SHARE. THE ISSUE PRICE OF ₹111/- IS 11.1 TIMES OF THE FACE VALUE.

MINIMUM LOT SIZE	MINIMUM APPLICATION OF 1200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1200 EQUITY SHARES THEREAFTER
------------------	---

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.	MANDATORY IN PUBLIC ISSUES FROM JANUARY 01, 2016. NO CHEQUE WILL BE ACCEPTED.
--------------	--	---	---

UPI now available in ASBA for individual UPI Applicants, whose application sizes are up to ₹5.00 lakhs, applying through Registered Brokers, DPs, & RTAs. Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being blocked by ASBA Bank. List of Banks supporting UPI is also available on SEBI at www.sebi.gov.in

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and Abridged Prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 195 of the Prospectus. The process is also available on the website of the Association of Investment Bankers of India and Stock Exchange in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the website of NSE at www.nseindia.com and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

The Application Forms that do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of Rills using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case of DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants shall not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE Emerge"). In terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, our Company has received an in Principal Approval letter dated March 21, 2024 from National Stock Exchange of India Limited (NSE) for using its name in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited. For the purpose of this issue, the designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited ("NSE").

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, the Draft Prospectus was filed with SEBI and the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. However, I was furnished to SEBI in soft copy only for your records. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 179 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of NSE on page 179 of the Prospectus.

LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED Address: Office No. 508, First Floor, Piviera, Nehru Nagar, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. E-Mail: info@ifsl.com Website: www.ifsl.com Investor Grievance Email: info@ifsl.com Contact Person: Prady Saxena SEBI Reg. No.: INM000012556	BIGSHAW SERVICES PRIVATE LIMITED Address: Office No. S8-2, 8th Floor, Pinnacle Business Park, Near to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400099 Tel No.: +91 22-62638200 Website: www.bigshawonline.com E-Mail: info@bigshawonline.com Contact Person: Mr. Sagat Pathani SEBI Reg. No.: INR000001385	Diksha Joshi, Teerth Gopicon Limited Address: 204, Anar Metro Near Baitkhatan Sangh Pagnis Page, Pagnispage Indore, Madhya Pradesh, India, 452007 Tel No.: +91 9039031165, Website: www.teerthgopicon.com E-Mail: investor@teerthgopicon.com Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer: The Lead Manager or the Registrar to the issue, in case of any pre-issuance or post-issuance related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-receipt of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

CREDIT RATING: As this is an issue of Equity Shares there is no credit rating for this issue.
DEBENTURE TRUSTEES: This is an issue of equity shares; hence appointment of debenture trustee is not required.
IPO GRADINGS: Since the issue is being made in terms of Chapter IX of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, there is no requirement of appointing an IPO grading agency.

BASED ON ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by our Company in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in the section "Basis for Issue Price" on page 71 of the Prospectus, are based on our Company's restated financial statements. Investors should also refer to the sections titled "Risk Factors" and "Restated Financial Information" on pages 20 and 129, respectively, to get a more informed view before making the investment decision.

BANKERS TO THE ISSUE AND REFINANCE BANK AND SPONSOR BANK: ICICI BANK LIMITED
AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of the Company, Teerth Gopicon Limited; the Office of the Lead Manager; the office of the Registrar to the Issue; RTAs and Depository Participants, and the selected offices of Registrars to the Issue. Application Forms can also be obtained from the Designated Branches of SCBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Application Forms can also be downloaded from the website of NSE at www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the issue. A full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of NSE at www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.ifsl.com and the website of the Issuer Company at www.teerthgopicon.com.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this issue unless they are able to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the issue including the risks involved. The Equity Shares offered in the issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 20 of the Prospectus.

PRECAUTIONARY NOTICE TO INVESTORS
Investors are advised to read the Prospectus including the risk factors carefully before taking an investment decision in this issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and this issue, including the risk factors on page 20. Involved. Specific attention of the investors is invited to THAT ANY News/Advertisements/SMS/ Messages/ Articles and Videos, if any, being circulated in the digital media and/or print media, speculating about the investment opportunity in our Company's issue and/or any shares of our Company being available at premium and/or discount to the issue price ("Misleading") AND/OR has not been issued by our Company or any of our Directors, Key Managerial Personnel, Promoters, Promoter Group or Group Companies, ANY SUCH MESSAGE in circulation is misleading & fraudulent advertisement and issued by a third party to sabotage the IPO, our Company or any of our Directors, Key Managerial Personnel, Promoters, Promoter Group or Group Companies and the intermediaries are not involved in any manner whatsoever.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013:
Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 111 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for information in relation to the issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 230 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.
Capital Structure: Authorized Capital of ₹1200.00 Lakhs consisting of 1,20,00,000 (One Crore and Twenty Lakh) Equity shares of ₹10 each. Pre-Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹800.00 Lakhs consisting of 80,00,000 Equity Shares of ₹10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹399.96 Lakhs consisting of 39,99,600 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page 51 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: The names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Initial allotment to Mr. Maheshbhai Kumbhani (500000 Equity Shares) and Ms. Chandrikaben Kumbhani (500000 Equity Shares) (the subscribers to the MoA of our Company).

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated March 30, 2024.
Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 20 of the Prospectus before making any investment decision.

For Teerth Gopicon Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Maheshbhai Kumbhani
Managing Director
DIN: 0673721

Place : Ahmedabad
Date : April 5, 2024

Teerth Gopicon Limited is proposing, subject to market conditions, an initial public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus dated March 30, 2024 with the Registrar of Companies, Ahmedabad ("ROC"). The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.ifsl.com, the website of the NSE at www.nseindia.com, and the website of the Issuer Company at www.teerthgopicon.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 20 of the Prospectus, which has been filed with the ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act, 1933 ("Securities Act") or any state securities law in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. Persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act, 1933.

KIRIN ADVISORS